



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 24 नवम्बर, 2020

अग्रहायण 3, 1942 शक सम्बत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश

संख्या 4/816-2020-4/113(अम्बेडकर नगर)-2014

लखनऊ, 24 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-350

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-2334-तैतीस-1-94-149-94, दिनांक 09 मई, 1994 द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 3 और 11(च) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को प्रतिनिहित शक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या 1207/38-3-2000-34बी/2000, दिनांक 15 मार्च, 2000 द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, किंजल सिंह, निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ, पंचायती राज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 1992/33-3-2014-03रा0नि0आ0/2014, दिनांक 16 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश संख्या 2491/33-3-2014-03रा0नि0आ0/2014, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार जनपद अम्बेडकर नगर की विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों की निर्गत अधिसूचना संख्या 4/71-2015-4/113(अम्बेडकर नगर)/2014, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 में विकास खण्ड-जलालपुर की ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में पूर्व स्थिति में उल्लिखित प्राविष्टियों के स्थान पर संशोधित स्थिति में उल्लिखित प्राविष्टियाँ एतद्वारा स्थापित करती हूँ।

जनपद-अम्बेडकर नगर

सारिणी

क्र०सं०	पूर्व स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/ क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड/ क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
1	जलालपुर	फत्तेपुर मोहितपुर	फत्तेपुर मोहितपुर	1	जलालपुर	फत्तेपुर मोहितपुर	फत्तेपुर मोहितपुर
2	जलालपुर	गोलपुर	गोलपुर	2	जलालपुर	गोलपुर	गोलपुर
	जलालपुर		सोनगांव उत्तर		जलालपुर		सोनगांव उत्तर
	जलालपुर		करमपुर कोलुवा		जलालपुर		करमपुर कोलुवा
3	जलालपुर	जीवत	जीवत	3	जलालपुर	जीवत	जीवत
4	जलालपुर	भितौरा उत्तर	भितौरा उत्तर	4	जलालपुर	भितौरा उत्तर	भितौरा उत्तर
5	जलालपुर	रुकुनपुर कासिमपुर	रुकुनपुर कासिमपुर	5	जलालपुर	रुकुनपुर कासिमपुर	रुकुनपुर कासिमपुर
6	जलालपुर	रेवई	रेवई	6	जलालपुर	रेवई	रेवई
	जलालपुर		रामपुर खुर्द		जलालपुर		रामपुर खुर्द
	जलालपुर		वनगवां		जलालपुर		वनगवां
7	जलालपुर	करमैनी	करमैनी	7	जलालपुर	करमैनी	करमैनी
	जलालपुर		हुसैनपुर बीबीपुर		जलालपुर		हुसैनपुर बीबीपुर
	जलालपुर		श्रीपुर		जलालपुर		श्रीपुर
8	जलालपुर	सोहगपुर	सोहगपुर	8	जलालपुर	सोहगपुर	सोहगपुर
9	जलालपुर	सकरा यूसुफपुर	सकरा यूसुफपुर	9	जलालपुर	सकरा यूसुफपुर	सकरा यूसुफपुर
10	जलालपुर	ऐन्दलपुर	ऐन्दलपुर	10	जलालपुर	ऐन्दलपुर	ऐन्दलपुर
11	जलालपुर	सिसारा	सिसारा	11	जलालपुर	सिसारा	सिसारा
12	जलालपुर	बरौली	बरौली	12	जलालपुर	बरौली	बरौली
	जलालपुर		रामपुर कहरा		जलालपुर		रामपुर कहरा
13	जलालपुर	गयासपुर	गयासपुर	13	जलालपुर	गयासपुर	गयासपुर
	जलालपुर		लारपुर उत्तर		जलालपुर		लारपुर उत्तर
14	जलालपुर	ब्राह्मपुर	ब्राह्मपुर	14	जलालपुर	ब्राह्मपुर	ब्राह्मपुर
	जलालपुर		मुईयनपुर		जलालपुर		मुईयनपुर
15	जलालपुर	गौरा महमदपुर	गौरा महमदपुर	15	जलालपुर	गौरा महमदपुर	गौरा महमदपुर
16	जलालपुर	अशरफपुर मजगवां	अशरफपुर मजगवां	16	जलालपुर	अशरफपुर मजगवां	अशरफपुर मजगवां
17	जलालपुर	गौरापुर ककरहिया	गौरापुर ककरहिया	17	जलालपुर	गौरापुर ककरहिया	गौरापुर ककरहिया
	जलालपुर		करौंदी		जलालपुर		करौंदी
18	जलालपुर	पंथीपुर	पंथीपुर	18	जलालपुर	पंथीपुर	पंथीपुर
	जलालपुर		मोहिउद्दीनपुर		जलालपुर		मोहिउद्दीनपुर
19	जलालपुर	अस्ताबाद	अस्ताबाद	19	जलालपुर	अस्ताबाद	अस्ताबाद
	जलालपुर		हुसैनपुर		जलालपुर		हुसैनपुर
20	जलालपुर	पक्खरपुर	पक्खरपुर	20	जलालपुर	पक्खरपुर	पक्खरपुर
	जलालपुर		बरसाइत		जलालपुर		बरसाइत
21	जलालपुर	उफरौली	उफरौली	21	जलालपुर	उफरौली	उफरौली
	जलालपुर		सेखूपुर		जलालपुर		सेखूपुर
22	जलालपुर	मंगुराडिला	मंगुराडिला	22	जलालपुर	मंगुराडिला	मंगुराडिला
23	जलालपुर	डीह भियांव	डीह भियांव	23	जलालपुर	डीह भियांव	डीह भियांव
24	जलालपुर	लाभापार	लाभापार	24	जलालपुर	लाभापार	लाभापार
25	जलालपुर	विशम्भरपुर	विशम्भरपुर	25	जलालपुर	विशम्भरपुर	विशम्भरपुर
26	जलालपुर	दुधई	दुधई	26	जलालपुर	दुधई	दुधई
	जलालपुर		सुरजूपुर		जलालपुर		सुरजूपुर
27	जलालपुर	हैदराबाद	हैदराबाद	27	जलालपुर	हैदराबाद	हैदराबाद
	जलालपुर		मथुरापुर		जलालपुर		मथुरापुर

1	2	3	4	1	2	3	4
28	जलालपुर	रामपुर कला	रामपुर कला	28	जलालपुर	रामपुर कला	रामपुर कला
29	जलालपुर	सिपाह	सिपाह	29	जलालपुर	सिपाह	सिपाह
30	जलालपुर	अरई	अरई	30	जलालपुर	अरई	अरई
31	जलालपुर	कैथा	कैथा	31	जलालपुर	कैथा	कैथा
32	जलालपुर	चितईपट्टी	चितईपट्टी	32	जलालपुर	चितईपट्टी	चितईपट्टी
33	जलालपुर	सम्मनपुर	सम्मनपुर	33	जलालपुर	सम्मनपुर	सम्मनपुर
34	जलालपुर	शरीफपुर	शरीफपुर	34	जलालपुर	शरीफपुर	शरीफपुर
	जलालपुर		रुकुनुददीनपुर		जलालपुर		रुकुनुददीनपुर
35	जलालपुर	बलुआ बहादुरपुर	बलुआ बहादुरपुर	35	जलालपुर	बलुआ बहादुरपुर	बलुआ बहादुरपुर
36	जलालपुर	मैनुददीनपुर	मैनुददीनपुर	36	जलालपुर	मैनुददीनपुर	मैनुददीनपुर
	जलालपुर		साईसमसपुर		जलालपुर		साईसमसपुर
37	जलालपुर	मछलीगांव	मछलीगांव	37	जलालपुर	मछलीगांव	मछलीगांव
38	जलालपुर	दाउदपुर	दाउदपुर	38	जलालपुर	दाउदपुर	दाउदपुर
39	जलालपुर	सरदिलपुर	सरदिलपुर	39	जलालपुर	सरदिलपुर	सरदिलपुर
	जलालपुर		आलमपुर गोमुनपुर		जलालपुर		आलमपुर गोमुनपुर
40	जलालपुर	कल्यानपुर	कल्यानपुर	40	जलालपुर	कल्यानपुर	कल्यानपुर
	जलालपुर		महमदपुर डड़वा		जलालपुर		महमदपुर डड़वा
41	जलालपुर	ताजूपुर	ताजूपुर	41	जलालपुर	ताजूपुर	ताजूपुर
	जलालपुर		मेवड़िया		जलालपुर		मेवड़िया
42	जलालपुर	हजपुरा	हजपुरा	42	जलालपुर	हजपुरा	हजपुरा
43	जलालपुर	बड़ेपुर	बड़ेपुर	43	जलालपुर	बड़ेपुर	बड़ेपुर
44	जलालपुर	मुरवाह	मुरवाह	44	जलालपुर	मुरवाह	मुरवाह
45	जलालपुर	लखनिया	लखनिया	45	जलालपुर	लखनिया	लखनिया
46	जलालपुर	नारीपुर मेहनाजपुर	नारीपुर मेहनाजपुर	46	जलालपुर	नारीपुर मेहनाजपुर	नारीपुर मेहनाजपुर
47	जलालपुर	कटघर मूसा	कटघर मूसा	47	जलालपुर	कटघर मूसा	कटघर मूसा
48	जलालपुर	कजपुरा	कजपुरा	48	जलालपुर	कजपुरा	कजपुरा
49	जलालपुर	शाहपुर फिरोजपुर	शाहपुर फिरोजपुर	49	जलालपुर	शाहपुर फिरोजपुर	शाहपुर फिरोजपुर
	जलालपुर		मलिकपुर छितूनी		जलालपुर		मलिकपुर छितूनी
50	जलालपुर	कन्नूपुर	कन्नूपुर	50	जलालपुर	कन्नूपुर	कन्नूपुर
51	जलालपुर	अशरफपुर भुआ	अशरफपुर भुआ	51	जलालपुर	अशरफपुर भुआ	अशरफपुर भुआ
52	जलालपुर	मीरापुर	मीरापुर	52	जलालपुर	मीरापुर	मीरापुर
53	जलालपुर	वाजिदपुर	वाजिदपुर	नगर विकास विभाग की अधिसूचना सं० 1954/9-6-2019-02-सीवि/2017, दिनांक 28.12.2019 द्वारा नगर पालिका परिषद् जलालपुर में सम्मिलित किया गया है।			
	जलालपुर		हाजीपुर				
54	जलालपुर	कान्दीपुर	कान्दीपुर	53	जलालपुर	कान्दीपुर	कान्दीपुर
55	जलालपुर	कालेपुर महुवल	कालेपुर महुवल	54	जलालपुर	कालेपुर महुवल	कालेपुर महुवल
56	जलालपुर	सेठाकला	सेठाकला	55	जलालपुर	सेठाकला	सेठाकला
57	जलालपुर	सलाहुददीनपुर	सलाहुददीनपुर	56	जलालपुर	सलाहुददीनपुर	सलाहुददीनपुर
58	जलालपुर	रसूलपुर बाकरगंज	रसूलपुर बाकरगंज	57	जलालपुर	रसूलपुर बाकरगंज	रसूलपुर बाकरगंज
59	जलालपुर	रहीमपुर पट्टी	रहीमपुर पट्टी	58	जलालपुर	रहीमपुर पट्टी	रहीमपुर पट्टी
	जलालपुर		पट्टीमुइय्यन		जलालपुर		पट्टीमुइय्यन
60	जलालपुर	चितौना कला	चितौना कला	59	जलालपुर	चितौना कला	चितौना कला
	जलालपुर		जल्लापुर		जलालपुर		जल्लापुर
61	जलालपुर	मिस्वाचितौना	मिस्वाचितौना	60	जलालपुर	मिस्वाचितौना	मिस्वाचितौना
62	जलालपुर	जगत्पुरबिल्टई	जगत्पुरबिल्टई	61	जलालपुर	जगत्पुरबिल्टई	जगत्पुरबिल्टई
63	जलालपुर	खजुरी करौंदी	खजुरी करौंदी	62	जलालपुर	खजुरी करौंदी	खजुरी करौंदी
64	जलालपुर	सैरपुरउमरन	सैरपुरउमरन	63	जलालपुर	सैरपुरउमरन	सैरपुरउमरन
65	जलालपुर	औवधनाइस्माईलपुर	औवधनाइस्माईलपुर	64	जलालपुर	औवधनाइस्माईलपुर	औवधनाइस्माईलपुर

1	2	3	4	1	2	3	4
66	जलालपुर	सुल्तानपुरगोइठा	सुल्तानपुरगोइठा	65	जलालपुर	सुल्तानपुरगोइठा	सुल्तानपुरगोइठा
	जलालपुर		डीधी		जलालपुर		डीधी
67	जलालपुर	ज्योतिपुर समैसा	ज्योतिपुर समैसा	66	जलालपुर	ज्योतिपुर समैसा	ज्योतिपुर समैसा
	जलालपुर		समैसा पोख्ता		जलालपुर		समैसा पोख्ता
68	जलालपुर	कोठीभार	कोठीभार	67	जलालपुर	कोठीभार	कोठीभार
69	जलालपुर	टिकरी	टिकरी	68	जलालपुर	टिकरी	टिकरी
70	जलालपुर	पटौहागानेपुर	पटौहागानेपुर	69	जलालपुर	पटौहागानेपुर	पटौहागानेपुर
71	जलालपुर	हरिपालपुर	हरिपालपुर	70	जलालपुर	हरिपालपुर	हरिपालपुर
72	जलालपुर	धवरुआ	धवरुआ	71	जलालपुर	धवरुआ	धवरुआ
73	जलालपुर	गुवांवाजमालपुर	गुवांवाजमालपुर	72	जलालपुर	गुवांवाजमालपुर	गुवांवाजमालपुर
74	जलालपुर	रामपुर दुबे	रामपुर दुबे	73	जलालपुर	रामपुर दुबे	रामपुर दुबे
75	जलालपुर	ठट्ठा	ठट्ठा	74	जलालपुर	ठट्ठा	ठट्ठा
76	जलालपुर	बीबीपुर	बीबीपुर	75	जलालपुर	बीबीपुर	बीबीपुर
	जलालपुर		इटौरी		जलालपुर		इटौरी
77	जलालपुर	बीबीपुर भुसौली	बीबीपुर भुसौली	76	जलालपुर	बीबीपुर भुसौली	बीबीपुर भुसौली
78	जलालपुर	सल्लाहपुर अकबालपुर	सल्लाहपुर अकबालपुर	77	जलालपुर	सल्लाहपुर अकबालपुर	सल्लाहपुर अकबालपुर
	जलालपुर		बाहापुर		जलालपुर		बाहापुर
79	जलालपुर	महेशपुर नेमपुर	महेशपुर	78	जलालपुर	महेशपुर नेमपुर	महेशपुर
	जलालपुर		नेमपुर		जलालपुर		नेमपुर
	जलालपुर		तेंदुआ दियरा		जलालपुर		तेंदुआ दियरा
80	जलालपुर	देवराहाहुसैनपुर	देवराहा	79	जलालपुर	देवराहाहुसैनपुर	देवराहा
	जलालपुर		हुसैनपुर विपहन		जलालपुर		हुसैनपुर विपहन
81	जलालपुर	दरियापुर	दरियापुर	80	जलालपुर	दरियापुर	दरियापुर
	जलालपुर		श्यामपुर		जलालपुर		श्यामपुर
82	जलालपुर	मालीपुर	मालीपुर	81	जलालपुर	मालीपुर	मालीपुर
83	जलालपुर	भदोही	भदोही	82	जलालपुर	भदोही	भदोही
84	जलालपुर	ताहापुर	ताहापुर	83	जलालपुर	ताहापुर	ताहापुर
85	जलालपुर	हाजीपुर	हाजीपुर	84	जलालपुर	हाजीपुर	हाजीपुर
	जलालपुर		खानपुर उमरन		जलालपुर		खानपुर उमरन
86	जलालपुर	खालिसपुर भटौली	खालिसपुर भटौली	85	जलालपुर	खालिसपुर भटौली	खालिसपुर भटौली
87	जलालपुर	बरौली आशानन्दपुर	बरौली आशानन्दपुर	86	जलालपुर	बरौली आशानन्दपुर	बरौली आशानन्दपुर
88	जलालपुर	बैरागल	बैरागल	87	जलालपुर	बैरागल	बैरागल
	जलालपुर		सिकन्दरपुर		जलालपुर		सिकन्दरपुर
89	जलालपुर	रुकुनपुर	रुकुनपुर	88	जलालपुर	रुकुनपुर	रुकुनपुर
	जलालपुर		टिकमलपुर		जलालपुर		टिकमलपुर
90	जलालपुर	मंसूरपुर	मंसूरपुर	89	जलालपुर	मंसूरपुर	मंसूरपुर
	जलालपुर		सभाजीतपुर		जलालपुर		सभाजीतपुर
91	जलालपुर	कबूलपुर	कबूलपुर	90	जलालपुर	कबूलपुर	कबूलपुर
92	जलालपुर	सुरहुरपुर	सुरहुरपुर	91	जलालपुर	सुरहुरपुर	सुरहुरपुर
93	जलालपुर	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	92	जलालपुर	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर
	जलालपुर		जफरपुर मुर्गजार		जलालपुर		जफरपुर मुर्गजार
94	जलालपुर	रुदौलीमाफी	रुदौलीमाफी	93	जलालपुर	रुदौलीमाफी	रुदौलीमाफी
95	जलालपुर	हासिमपुर	हासिमपुर	94	जलालपुर	हासिमपुर	हासिमपुर
	जलालपुर		जिन्दासपुर		जलालपुर		जिन्दासपुर
96	जलालपुर	रुधौली अदाई	रुधौली अदाई	95	जलालपुर	रुधौली अदाई	रुधौली अदाई
	जलालपुर		कुलहिहयापट्टी		जलालपुर		कुलहिहयापट्टी
97	जलालपुर	करमिसिरपुर	करमिसिरपुर	96	जलालपुर	करमिसिरपुर	करमिसिरपुर
	जलालपुर		नूरपुर		जलालपुर		नूरपुर

1	2	3	4	1	2	3	4
98	जलालपुर	बसिया	बसिया	97	जलालपुर	बसिया	बसिया
	जलालपुर		देवसरा		जलालपुर		देवसरा
99	जलालपुर	उसरहा	उसरहा	98	जलालपुर	उसरहा	उसरहा
100	जलालपुर	सोनगांव	सोनगांव	99	जलालपुर	सोनगांव	सोनगांव
101	जलालपुर	पेटिया	पेटिया	100	जलालपुर	पेटिया	पेटिया
	जलालपुर		इमलीपुर		जलालपुर		इमलीपुर
102	जलालपुर	बड़ागांव	बड़ागांव	101	जलालपुर	बड़ागांव	बड़ागांव
103	जलालपुर	भाउकुंआ	भाउकुंआ	102	जलालपुर	भाउकुंआ	भाउकुंआ
104	जलालपुर	रामपुर चाड़ीडीहा	रामपुर चाड़ीडीहा	103	जलालपुर	रामपुर चाड़ीडीहा	रामपुर चाड़ीडीहा
105	जलालपुर	जमौली	जमौली	नगर विकास विभाग की अधिसूचना सं० 1954/9-6-2019-02-सीवि/2017, दिनांक 28.12.2019 द्वारा नगर पालिका परिषद् जलालपुर में सम्मिलित किया गया है।			
106	जलालपुर	शेखपुरा राजकुमारी	शेखपुरा राजकुमारी	104	जलालपुर	शेखपुरा राजकुमारी	शेखपुरा राजकुमारी
107	जलालपुर	भसमा	भसमा	105	जलालपुर	भसमा	भसमा
108	जलालपुर	गुवापाकड़	गुवापाकड़	106	जलालपुर	गुवापाकड़	गुवापाकड़
109	जलालपुर	जैनापुर	जैनापुर	107	जलालपुर	जैनापुर	जैनापुर
110	जलालपुर	आजनपारा	आजनपारा	108	जलालपुर	आजनपारा	आजनपारा
111	जलालपुर	इस्माईलपुर	इस्माईलपुर	109	जलालपुर	इस्माईलपुर	इस्माईलपुर
112	जलालपुर	जफरपुर	जफरपुर	110	जलालपुर	जफरपुर	जफरपुर
	जलालपुर		नसोपुर		जलालपुर		नसोपुर
113	जलालपुर	नत्थूपुर लौधना	नत्थूपुर लौधना	111	जलालपुर	नत्थूपुर लौधना	नत्थूपुर लौधना
114	जलालपुर	कुसुमखोर	कुसुमखोर	112	जलालपुर	कुसुमखोर	कुसुमखोर
	जलालपुर		निजामपुर		जलालपुर		निजामपुर
115	जलालपुर	आसीपुर	आसीपुर	नगर विकास विभाग की अधिसूचना सं० 1954/9-6-2019-02-सीवि/2017, दिनांक 28.12.2019 द्वारा नगर पालिका परिषद् जलालपुर में सम्मिलित किया गया है।			
	जलालपुर		लारपुर दक्षिण	ग्राम पंचायत गौरा कमाल में सम्मिलित कर दिया गया है।			
116	जलालपुर	फरीदपुर	फरीदपुर	नगर विकास विभाग की अधिसूचना सं० 1954/9-6-2019-02-सीवि/2017, दिनांक 28.12.2019 द्वारा नगर पालिका परिषद् जलालपुर में सम्मिलित किया गया है।			
117	जलालपुर	गौरा कमाल	गौरा कमाल	113	जलालपुर	गौरा कमाल	गौरा कमाल
					जलालपुर		लारपुर दक्षिण
118	जलालपुर	नगपुर	नगपुर	114	जलालपुर	नगपुर	नगपुर
119	जलालपुर	चिलवनिया	चिलवनिया	115	जलालपुर	चिलवनिया	चिलवनिया
	जलालपुर		डड़वा		जलालपुर		डड़वा
	जलालपुर		उसमापुर देहात	नगर विकास विभाग की अधिसूचना सं० 1954/9-6-2019-02-सीवि/2017, दिनांक 28.12.2019 द्वारा नगर पालिका परिषद् जलालपुर में सम्मिलित किया गया है।			
120	जलालपुर	जलालपुर देहात	जलालपुर देहात				
	जलालपुर		महमदपुर हमजा				

उपर्युक्तानुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-4/71/2015-4/113(अम्बेडकर नगर)/2014, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,
किंजल सिंह,
निदेशक,
पंचायती राज, उ०प्र०।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 432 राजपत्र-2020-(959)-599 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 24 सा० पंचायती राज-2020-(960)-132 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।